



भारत ज्ञान विज्ञान समिति

Flat no.-59/5, 3rd Floor, Near K-Block, Ravidas Marg, Kalkaji New Delhi - 110019

Phone : 011-2646 3324, Fax : 2646 9773, website:-www.bgvs.org

Email : bgvs_delhi@yahoo.co.in, bgvsdelhi@gmail.com

Sale Unit: E-7/32-B (SBI Colony), Arera Colony, Bhopal 462016
Tel: 0755-2426 652, Email: mpbgvs@gmail.com

बाल पुस्तक माला प्राइमरी

Class - 1 & 2 Age group (5-6 years)

क्र. सं.	पुस्तक का नाम	लेखक का नाम	मूल्य
चित्र पुस्तिकाएँ			
1	सचित्र कहानियां *	निकोलाई रादलोव	21
2	बोलते पत्थर *	अबुलफूजल हिम्माती	18
3	इठलाती गुठली *	मरियम रहमाती इवनि	21
4	अक्षर चित्र *	विष्णु चिचालकर	15
5	अंगूठे से चित्र *	अरविंद गुप्ता	17
6	पत्तों का चिड़िया घर	अरविन्द गुप्ता	21
7	सच्चे बच्चे अच्छे बच्चे *	फूडक्वोल्याड	27
8	ऊंची उड़ान	शिल्ले हयूज	22
कविता			
क्र. सं.	पुस्तक का नाम	लेखक का नाम	मूल्य
1	गेंद निराली मीठू की	राजेश जोशी	90
2	हमारी नाव चली	डॉ. एस.पी.खत्री	22
3	इक्का तांगा मोटर	डॉ. एस.पी.खत्री	22
4	रेलगाड़ी	हरीन्द्र नाथ चटोपाध्याय	15
5	गुल्लू गुड़िया के नहे गगन में	के.के. कृष्णकुमार	40
6	जेला, जैक और जोडिएक *	बिल पीट	31
7	पप्पू की पंतग *	एलिजाबेथ मैकडोलॉल्ड	25

क्र. सं.	पुस्तक का नाम	लेखक का नाम	मूल्य
कहानी			
1	मूली	स्नेहलता	45
2	धूप	ज्योति दिवान	55
3	दानी पेड़ *	अरविंद गुप्ता	19
4	रजिया का कमाल	स्नेहलता	50
5	हैरल्ड की बैंगनी पेंसिल *	क्रॉिकट जॉनसन	35
6	नन्हा भगोड़ा खरगोश *	वाईज ब्राउन	22
7	बिल्लियों की बारात *	वैंडा गैग	21
8	पांच चीनी भाई	क्लैर हचिट बिशप	22
9	स्वार्थी राक्षस	ऑस्कर वाइल्ड	14
10	सबसे छोटा खरगोश *	रॉबर्ट क्राउस	45
11	क्या तुम मेरी मां हो *	पी.डी.ईस्टमैन	21
12	एक था चूहा *	मोरिका ब्रोन	17
13	सबसे बलि कौन	स्वयं प्रकाश	25
14	बेर का पेड़	पंकज चतुर्वेदी	35
विज्ञान			
1	पूछ पाछ का खेल	कनिका नायर	90
2	कितना बड़ा होता है फुट *	रौल मॉइलर	23
3	सॉप का सच	पारूल बत्रा दुग्गल	45

बाल पुस्तक माला मिडिल **Class - 3,4 & 5 Age group (7-10years)**

नया-पुराना साहित्य			
1	बेताल पच्चीसी	बी.जी.वी.एस	30
2	हिरनौटा	डामत्री मेमिन सिबियार्क	19
3	जौनाथन लिविंगस्टन सीगल	रिचर्ड बाख	22
4	शिन की तिपहिया साइकिल	टाटसुरारू कोडरमा	22
5	हिरोशिमा की आग	तोशी मारुकी	25
6	जिसने उम्मीद के बीज बोये *	तोशी मारुकी	25
7	फूलों की उम्मीद	ट्रिना पौलोस	19
8	वफादार हाथी *	युकिया थुचिया	21
9	तीन बच्चे और हींगवाला	सुभद्राकुमारी चौहान	20
10	अंकल टाम का झोपड़ा	पी.ए. वारियर	33
11	आखिरी फूल *	जेम्स थर्बर	22
12	आखिरी पत्ता *	ओ. हेनरी	21
13	सडाकों और कागज के पक्षी	एलीनेर कोपर	22
14	मददगार हाथ	सुजाना हैल्डेन	22
15	मेरी बहन सुन नहीं सकती	जीनवाइटहाउस पीटरसन	21
16	व्हील चेर ही मेरे पैर है *	एंग्रेट रिदर	50
17	बसरा की लाइब्रेरियन	जेनिट विंटर	22
18	शेर और नन्ही लाल चिड़िया	एलिसा क्वीविन	20
19	बिल्ली के बच्चे	चेखोव	17
20	एक मधुमक्खी और एक गुलाब	पीटर डी रोजा	21
21	लाल फूल	सेर्गेई अक्साकोव	23
22	जिस रात पलंग गिर गया	जेम्स थर्बर	15
23	नन्दी की पीठ का कुब्बड़	डी.डी. कौशांबी	20
24	एक छोटा बूढ़ा आदमी	नटाली नॉरटन	25

क्र. सं.	पुस्तक का नाम	लेखक का नाम	मूल्य
25	जैसे उनके दिन फिरे	क्वेंटन स्टीवनशेप	17
26	छिपा रहस्य	सी.एन अन्नादुरै	15
27	लाल केंला	सुजाता पदनावाभन	17
28	चुस्किट का पहला स्कूल	जे.बी.एस. हैल्डेन	22
29	बोलने वाली बिल्ली	हरिशंकर परसाई	18
जीवन और जीवनियां			
1	जार्ज वाशिंगटन कार्वर	अरविंद गुप्ता	22
2	लुई ब्रेल	अरविंद गुप्ता	19
3	मैडम क्यूरी	गीता बंदोपाध्याय	27
4	एलेक्जेंडर ग्राहम बेल	अरविन्द गुप्ता	19
5	बहुरूप गांधी	अनु बंदोपाध्याय	80
6	अहिल्याबाई	वीणा शिवपुरी	14
भारत के वैज्ञानिक			
क्र. सं.	पुस्तक का नाम	लेखक का नाम	मूल्य
1	सी. वी रामन	बी.जी.वी.एस	20
2	जगदीश चन्द्र वशु	बी.जी.वी.एस	20
3	होमी जहांगीर भाभा	बी.जी.वी.एस	20
4	प्रफुल्ल चन्द्रराय	बी.जी.वी.एस	20
5	मेघनाथ साहा	बी.जी.वी.एस	20
6	बीरबल साहनी	बी.जी.वी.एस	20
7	विक्रम सारा भाई	बी.जी.वी.एस	20
8	जे.वी.एस हेल्डेन	बी.जी.वी.एस	20
9	श्री निवास रामानुज	बी.जी.वी.एस	20
10	शान्ति स्वरूप भटनागर	बी.जी.वी.एस	20

रोचक			
क्र. सं.	पुस्तक का नाम	लेखक का नाम	मूल्य
1	लुलु मौसी *	डेनियल पिकवॉटर	25
2	वूल्फी	जेनेट चेनेरी	28
3	पक्षियों का राजा *	बीजीवीएस	28
4	नन्हा राजकुमार	सैंतेकजूपेरी	50
5	कूकू और भूरी	लीसा अर्नस्ट	21
6	ईदगाह	मुंशी प्रेम चन्द्र	17
7	अस्पताल की दास्तान	निकोलाई नोसोव	17
8	चूहे और चूहे *	एस.बी.एस हेल्डन	22
9	एक शाम जादूगर के साथ	जे.बी.एस. हेल्डन	19
10	मीशका का दिलिया *	नोसोव निकोलाई	19
11	बात की बात ठिठोली की ठिठोली	महमूद / अनिल	19
12	शैतान चूहे	जॉन योमैन	19
13	चीनू और मोनू की कहानियां	प्रकाश कान्त	45
14	माईक का स्टीम शवल	बर्टन	30
15	लाखी	अन्तोन चेखोव	23
16	जादुई बीज *	मित्सुलमासा ऐनो	22
17	बालक और सूरज	वी.के. दामोदरन	27
18	चंद्रामामा	गोपाल कृष्णन चुनक्कर	27
19	अण्डे से चूजा	मिलसैंट सेल्सेम	24
20	मीराबाई	कमला भसीन	15
21	हेलन केलर की आत्मकथा	अरविन्द गुप्ता	30
22	नील बाग के डेविड	एस आनन्द लक्ष्मी	25

ज्ञान			
1	संख्याजगत में खेलकूद	पी.के श्रीनिवासन	50
2	आकाश नीला क्यों होता है	सी.वी.रमन	23
3	मुर्गी के चूजे	निकोलाई नोसोव	22
4	पृथ्वी के रहस्य	आइका सुबोटा	22
5	दूर बहुत दूर	पी.आर माधावपनिकर	23
6	लडका क्या है लडकी क्या है	कमला भसीन	25
7	बच्चे कैसे बनते हैं?	एंड्रू एंड्री स्टीवनशैप	27
8	कभी न खत्म होने वाली किताब	एस. शिवदास	45
9	विज्ञान के प्रयोग	कीथ वारेन	17
10	सीखने का मजा	बी.जी.वी.एस	25
11	हमें कैसे पता चला अंतरिक्ष के बारे में	आइजैक एसिमोव	27
12	बदलते घर	के. रामाचन्द्रन	22
13	साबुन पानी जिंदाबाद	कोर्नेई चुकोव्स्की	18
14	साइकिल की कहानी	विजय गुप्ता	34
15	सबसे बड़ा आश्चर्य	नीना पावलोवा	20
16	छोटी चींटी से विशाल हाथी तक	गोपालकृष्ण कामवार	30
17	इंसान-इंसान कैसे बना	के.के कृष्णकुमार	30
18	पृथ्वी गोल है	आइजिक एसिमोव	30
19	विज्ञान के रोचक प्रयोग	अंशुमाला गुप्ता	34
20	खोजो की कहानी	अंशुमाला गुप्ता	31
21	कूड़ा कचरा	लौरी बेकर	22
21	हमारे तालाब	मधुब ीज शैशी	14
22	ताप भाप और आप	लाल्ट	35
23	जहां बर्फ नहीं पिघलती	वी.श्रीकुमार	19
24	लिखाई की कहानी	अनीतारामपाल	30
25	घर की कीमत कम कैसे करें	लौरीबेकर	31
26	मिट्टी	लौरीबेकर	17
27	रोबोट और पतंगी	व्युत्तार्ते जलिसकायते	22
28	जुएं कपड़े और आधुनिक मानव	टी.वी.वेंकटेश्वरन्	27
29	विज्ञान और उन्मुक्तता	डी.डीक रेसांबी	33
30	पुरातत्व विज्ञान की कहानी	एमए लिंगम	34
31	विज्ञान के रोचक प्रयोग	अंशुमाला गुप्ता	31
32	खोजो की कहानी	अंशुमाला गुप्ता	60
33	भारतीय चित्रकला की कहानी	माणिकवलावलकर	18
34	बंदर से इंसान बनने में श्रम की भूमिका	फेडरिकए गेल्स	45
35	सौरमंडल की बात	बीजीवीएस	30
36	धरती से तारों तक	बीजीवीएस	27

रोचक			
क्र. सं.	पुस्तक का नाम	लेखक का नाम	मूल्य
23	नन्हीं राजकुमारी और चन्द्रमा	जेम्स थर्बर	15
24	चतुर बंदर	दीप	17
25	नकचढ़ी राजकुमारी	कैथलीन मुलडून	20
26	मेंढक राजा	सुकुमार राय	18
27	एक लड़की जिसे किताबों से नफरत थी	मंजूशा पावगी	22
28	अपरिचितों के बीच	निकोलाई नोसोव	18
29	नगर की सैर	निकोलाई नोसोव	15
30	नजानू चित्रकार कैसे बना	निकोलाई नोसोव	19
31	जौनी एपलसीड की कहानी *	अलीको	22
32	सिंहासन बत्तीसी	तापोश चक्रवर्ती	31
33	लाल गुब्बारा *	एल्बर्ट लैमोरिस	25
34	पिंग की कहानी *	माजारोरी फलैक	27
35	नन्हें आर्थर का सूरज *	हेडजाक गुलनजरायन	21

शिक्षा जगत			
1	खतरा स्कूल	मार्क ट्वेन	65
2	अच्छा स्कूल	जॉन होल्ड	24
3	खुशियों का स्कूल	अरविंद गुप्ता	21
4	मेरा जादुई स्कूल	डॉ. अभय बंग	15
5	खुशहाल बच्चे	शोभा भागवत	25
6	खेल-खेल में शिक्षा	विष्णु चिंचालकर	15
7	तोता	रवीन्द्र नाथ ठाकुर	17
8	एक भी कम न हो	दिलीप चिंचालकर	17
9	आखें की चमक *	अरविन्द गुप्ता	21

विज्ञान			
37	बच्चे और तराजू	जोस एल्सटगीस्ट	17
38	बच्चे दर्पण और प्रतिबिम्ब	जोस एल्सटगीस्ट	19
39	बच्चे और पर्यावरण	जोस एल्सटगीस्ट	21
40	बच्चे और पानी	जोस एल्सटगीस्ट	22
41	फुगो का वह दिन *	जेम्स ए. स्मिथ	15
42	बहुत सारी मछलियां	मिलसैंट सेल्सेम	33
43	बिनी के जानवर	मिलसैंट सेल्समैन	22
44	हरियाली ही हरियाली उर्फ भोजन	विनोद रायना	17
45	प्लास्टिक रे प्लास्टिक	सुशील जोशी	17
46	हमें रक्त के बारे में कैसे पता चला?	आइजिक एसिमोव	40
47	हमें ऊर्जा के बारे में कैसे पता चला?	आइजिक एसिमोव	40
48	हमें कीटाणु के बारे में कैसे पता चला?	आइजिक एसिमोव	40
49	हमें जीवन की उत्पत्ति के बारे में कैसे पता चला?	आइजिक एसिमोव	40
50	हमें गहरे समुद्र में जीवन के बारे में कैसे पता चला?	आइजिक एसिमोव	40
51	हमें सौर ऊर्जा के बारे में कैसे पता चला?	आइजिक एसिमोव	40
52	हमें ज्वालामुखियों के बारे में कैसे पता चला?	आइजिक एसिमोव	40
53	हमें डायनोसॉर्स के बारे में कैसे पता चला?	आइजिक एसिमोव	40
54	हमें विद्युत् के बारे में कैसे पता चला?	आइजिक एसिमोव	40
55	हमें अंकों के बारे में कैसे पता चला?	आइजिक एसिमोव	40
56	हमें फोटोसिंथेसिस के बारे में कैसे जाना?	आइजिक एसिमोव	40
57	हमें तेल के बारे में कैसे पता चला?	आइजिक एसिमोव	40
58	हमें अति सम्बाहकशीलता के बारे में	आइजिक एसिमोव	40
59	सूर्य कैसे चमकता है?	आइजिक एसिमोव	40
60	हमें विद्युत् के बारे में कैसे पता चला?	आइजिक एसिमोव	40
61	हमें अपने मानवीय जड़ों के बारे में कैसे पता चला?	आइजिक एसिमोव	40
62	हमें ब्लैक होल के बारे में कैसे पता चला?	आइजिक एसिमोव	40
63	हमें परमाणु के बारे में कैसे पता चला?	आइजिक एसिमोव	40
64	हमें अंतरिक्ष के बारे में कैसे पता चला?	आइजिक एसिमोव	40
65	हमें कॉमेट के बारे में कैसे पता चला?	आइजिक एसिमोव	40
66	हमें वायु मंडल के बारे में कैसे पता चला?	आइजिक एसिमोव	40
67	सूरज कब निकलेगा	स्वयं प्रकाश	21

जनवाचन पुस्तक माला			
विविध कहानी			
क्र.सं.	पुस्तक का नाम	लेखक का नाम	मूल्य
1.	शतरंज की कहानी	चन्द्र किरण राठी	15
2.	दो गौरैया	भीष्म साहनी	14
3.	गुलेल का खेल	भीष्म साहनी	15
4.	कथा सुन्दर लाल की	चंचल चौहान	14
5.	बुलाकी बाबा	सुरेश सलिल	14
6.	झुनझुना	नरेश पंडित	14
7.	तेतर	मुशीं प्रेमचन्द	14
8.	अक्ल बड़ी या भैंस	शिवकान्त दुबे	14
9.	इंद्रा का हाथी	महेश दर्पण	14
10.	दलूदास के हाथ क्यों कटे	संजय झा	14
11.	मुल्ला नसरुद्दीन भारत में	विष्णु नागर	15
12.	खेत में उगीं मछलियां	विजय विशाल	15
13.	भाग्य बड़ा या कम	विष्णु नागर	18
14.	देवी चमत्कारों का पर्दाफोड़	सतबीर नागल	38
15.	दक्षिण झील का चांद	बीजीवीएस	38
16.	कोटकी	के. राधा कृष्णन	30
17.	जन कहावतें	बीजीवीएस	37
18.	खोजा नसरुद्दीन भारत में	रिजवान जहीर उस्मान	14
19.	न बड़ा न छोटा	विष्णु नागर	25
20.	लादू भोगा की कहानी	रिजवान जहीर उस्मान	14
21.	राष्ट्रीय नाक	विष्णु नागर	14
22.	गिरगिट का सपना	मोहन राकेश	17
23.	अलों का न्याय	रिजवान जहीर उस्मान	18
24.	ईश्वर की कहानियां	विष्णु नागर	17
25.	ईश्वर और चुनाव	विष्णु नागर	18
26.	काबुल की सैर	काशीनाथ चटर्जी	20
27.	जंगल में स्कूल	नरेन्द्र कुमार	15
28.	मणिमेखलै	बी.जी.वी.एस	33
29.	मुन्ना और मुन्नी	बीजीवीएस	22
30.	पर्दाफाश टाईम्स	स्वातीवर्जिनिया	31
31.	कूछ और जनकहावतें	बीजीवीएस	31
32.	भूखें की मछली	बीजीवीएस	30
जन-नाटक			
1.	एक गांव की एक कहानी	शिवराम	25
2.	गंगा कह कहानी	इशितयाक	27
3.	पीपल का भूत	इशितयाक	22
4.	गिरगिट	अन्तोन चेखोव	19
5.	मंगलू यमराज के दरबार में	याम बहादुर नम्र	15
6.	मत बांटो इंसान को	भा.ज्ञा.वि.स	30
7.	मुजरिम कौन	बीजीवीएस	28
8.	ये दिल मांगे मोर	बीजीवीएस	31
9.	हिंसा परमों धर्म	बीजीवीएस	23
10.	दीवारें	इशितयाक	22
11.	लार्श बोली	बीजीवीएस	27
12.	उधार का स्वर्ग	बीजीवीएस	23
13.	फर्क कहाँ है	असगर वजाहत	23
14.	गधा पुराण	ब्रजेश शर्मा	38
15.	आत्महत्या	नाटक	25
16.	बात पते की	बीजीवीएस	23
17.	आओ बात करें	रिजवान जहीर उस्मान	21
जन वाचन श्रृंखला में कुछ नई पुस्तकें			
1.	विस्थापन का सच	मनाज कुलकर्णी	20
2.	खुली हवा में	नीलेश रघुवंशी	30
3.	मुर्गी बेचने वाली	डी.डी. कोसाम्बी	20
4.	सफल उद्यम	बी.जी.वी.एस	35
5.	महिलाओं के प्रश्न	बी.जी.वी.एस	50
6.	विश्ववशु का समाज	पूर्णचन्द्ररथ	40

मार्गदर्शिकाएँ एवं संदर्भ पुस्तकें			
1.	आरटीई सवाल-जवाब	विनोद रायना	100
2.	आरटीई प्राइमर	बीजीवीएस	15
3.	स्वयं सहायता समूह-मार्गदर्शिका	बीजीवीएस	100
4.	पंचायत स्तरीय समूह-मार्गदर्शिका	बीजीवीएस	150
5.	Civil Society Processes...	Denzil Saldanha	750
6.	Women & child guide Book	T. Sundararaman	100
7.	United We Sit	BGVS	75
8.	Food & Hungry	T. Sundararaman	60
9.	विलेज मेडिकल किट	T. N.S.F., Chennai	60
गीत			
1.	बहनों की पीड़ाएं	ज्ञान वि. स. बिहार	15
2.	सपने और सच	ज्ञान वि. स. बिहार	15
3.	युद्ध से लौटा पिता	दीनू कश्यप	19
4.	बराबरी के गीत	भा.ज्ञा.वि.स.	19
5.	देश बड़ा कब होता है	लाल्टू डॉ.	15
6.	राजा कंआ	भगत सिंह सोनी	17
7.	जा सुनियों हमरी काका रे	नरेन्द्र कुमार	17
8.	बहनों के गीत	नरेन्द्र कुमार	17
9.	औरतों की कविताएं	शुभा	14
10.	हम और हमारी एकता	भा.ज्ञा.वि.स	19
11.	हम होंगे कामयाब	बी.जी.वी.एस	22
12.	पत्थरों को तोड़ा है	बी.जी.वी.एस	22
13.	सारी दुनिया मांगेगे	बी.जी.वी.एस	20
14.	बेटियों के पक्ष में	बी.जी.वी.एस	20
आधी दुनिया (महिलाएँ)			
1.	मां का दूध	रिजवान जहीर उस्मान	14
2.	आंख की कहानी	आई एम जोज बाड़ी	15
3.	मां और शिशु का भोजन	बीजीवीएस	28
4.	औरत का शरीर और स्वास्थ्य	बीजीवीएस	31
5.	सही भोजन	बीजीवीएस	28
6.	औरत जात लिंग और वर्ग	ईविन रीड	22
7.	महिलाओं के सवाल	सी. एल.आर. जेम्स	22
8.	सबके लिए स्वास्थ्य	भारत डोगरा	15
9.	कोई भी भूखा क्यों रहे	बीजीवीएस	27
10.	घरेलू उद्योग	अरीवाली	14
11.	कामगार औरतों के हक	विष्णु नागर	15
12.	महिलाओं के मुद्दे	क्लारा जेटकिन	28
13.	महिला और मीडिया	भारत शर्मा	30
14.	संघर्ष की कथा	नीति दिवान	30
15.	औरत जात लिंग और वर्ग	ईविन रीड	22
16.	मैंने हिम्मत नहीं हारी	मासूम	14
17.	औरत के भूत की कहानी	एल्गर्नन ब्लैकवुड	18
18.	जैनी	विक्टर ह्यूगो	17
19.	उमरावजान 'अदा'	मिर्जा हाजी 'रूस्वा'	36
20.	छुड़िया की छबनी	दुनू	22
21.	चिंता की चार बहनें	सरिता सिंह	14
22.	तीन बेटियों की मां	शुभा	14
23.	चतुर चम्पा	हीरा लाल नागर	15
24.	उस गांव की लड़की	सरिता सिंह	14
25.	हमारे गांव की आशा	विष्णु नागर	15
26.	मेरी अम्मा	संजय कुमार	19
27.	हड़ती की कहानी	सी.एस साखला	19
28.	अपराजिता	काल्यायनी	23
29.	सरला से बनी सरला जी	विनय दुबे	19
30.	डायन व अन्य कहानियां	सजीव	19
विविध			
1.	भाषा की गतिविधि पुस्तिका	बी.जी.वी.एस	20
2.	सही समझ (गणित)	बी.जी.वी.एस	25

31	पानीपत की हक्को	सुरेश सलिल	14
32	गर्व से कहो हमारी बेटियां	बीजीवीएस	34
33	दायरो को तोड़ती	मंजु शर्मा	27
34	बलि	स्वयं प्रकाश	28
35	औरत की कहानी औरत की जुबानी	नीलिमा गुप्ता	22
36	क्यू क्यू छोरी	महाश्वेता देवी	14

जन संघर्ष

1.	तेभागा आंदोलन	अब्दुल्ला रसूल	20
2.	हेवल नदी के किनारे	भारत डोगरा	15
3.	केरल किसान आंदोलन	टी. के. रामकृष्णन	28
4.	त्रिपुरा किसान आंदोलन	दशरथ देब	20
5.	वारली विद्रोह	गोदावरी पारुलेकर	31
6.	अट्टारह सौ सत्तावन	डॉ. निधि शर्मा	31
7.	हिमाचल में जन विद्रोह भाग 1	विजय विशाल	17
8.	हिमाचल में जन विद्रोह भाग 2	विजय विशाल	17
9.	हिमाचल में जन विद्रोह भाग 3	विजय विशाल	17
10.	झारखण्ड के सवाल	ए. के. राय	27
11.	मई दिवस	एंडी मंकीनर्नी	20
12.	संघर्ष कथा	सहीराम	14
13.	त्याग और आंदोलनकारी	संजीव चांदोरकर	23
14.	आंदोलन और अपना स्वास्थ्य	संजीव चांदोरकर	18

व्यक्तित्व, किस्से, लोक जीवन

क्र. सं.	पुस्तक का नाम	लेखक का नाम	मूल्य
1.	सुभाषचंद्र बोस	ए.के. राय	18
2.	शाहनामा	शाहनामा	45
3.	नजीर अकबराबादी	ज्योत्सना रघुवंशी	27
4.	बरकतउल्ला भोपाली	विनोद तिवारी	20
5.	थार की गहराई से	रामेश्वर बागड़िया	25
6.	प्रेमचंद्र की कुछ कहानियां	प्रेमचन्द्र	31
7.	प्रेमचंद्र की कुछ और कहानियां	प्रेमचन्द्र	27
8.	टैगोर की कुछ कहानियां	रवींद्रनाथ टैगोर	25
9.	टैगोर की कुछ और कहानियां	रवींद्रनाथ टैगोर	25
10.	चाली की दास्तान	विनोद कुमार	23
11.	हातिमताई	बीजीवीएस	33
12.	राजस्थान की लोक कथाएं	विजय दानदेथा	33
13.	उत्तराखण्ड की लोक कथाएं	मनोहर चमोली	33
14.	अंडमान नकोबारक लोक कथाएं	लीलाधार मंडलाई	23

कौन, कब, कैसे, क्यों ?

1.	सवाल दस रुपये का	मनोहर चमोली	25
2.	निन्यानबे का फेर	प्रमोद मलिका	22
3.	बजट इक्कीसवीं सदी का	तापोश चक्रवर्ती	20
4.	काला धन क्या है	तापोश चक्रवर्ती	18
5.	सबसिडी	तापोश चक्रवर्ती	22
6.	विनिवेश का छुपा एजेन्डा	तापोश चक्रवर्ती	25
7.	गरीबी क्यों नहीं हटती	तापोश चक्रवर्ती	33
8.	आंदोलन बनाम मैनेजमेंट	संजीव चांदोरकर	20
9.	उपभोक्तावाद अच्छा या बुरा	संजीव चांदोरकर	22
10.	नौकरी करें या न करें	संजीव चांदोरकर	18
11.	हम कैसे दुनिया चाहते हैं	भारत डोगरा	15
12.	बजट का झमेला	तापोश चक्रवर्ती	22
13.	पैसे की माया का भंडाफोड़	लुई ईवन	23
14.	मानव सभ्यता में इस्लाम	एम.एन.राय	42
15.	वेदों का देश	ई.एम.एस नंबूद्रीपाद	34
16.	भारत में बौद्ध धर्म की क्षय	डी.डी. कौशांबी	18
17.	विचारधारा	संजीव चांदोरकर	20
18.	दलित कहानियां	बीजीवीएस	30
19.	मुझे राजनीति पसंद नहीं	तमिल सेल्वन	33
20.	गांधी ऐसे थे	विष्णु नागर	17
21.	सुखोमांजरी का संदेश	अमिताभ	14
22.	सौ साल का सिनेमा	प्रेम रंजन	15
23.	चरखे का संदेश	भारत डोगरा	15

24.	भोपाल गैस त्रासदी	मनोज कुलकर्णी	20
25.	भाईचारे का इतिहास	डॉ. महरूद्दीन खां	15
26.	नया ग्राम स्वराज	तापोश चक्रवर्ती	18
27.	किस्सा राज काज का	माधावकृष्ण दातार	35
28.	शराब को दूर भगाना है	भारत डोगरा	19
29.	क्रांतिकारी चिकित्सा	चेग्येवारा	20
30.	खरीददार के कानूनी हक	विजय विशाल	15
31.	पुलिस और हम	विष्णु नागर	14
32.	सूचना का अधिकार	भारत डोगरा	17
33.	बाजार और हम	माधाव कृष्ण दातार	34
34.	लिंग और जाति माक्सवादी नजरिए से	रंगनायकम्मा	25
35.	हमारी संस्कृति किसकी संस्कृति	सुंदर लोहिया	33
36.	भगवतगीता के सामाजिक राज. पहलू	डी.डी. कौशांबी	30
37.	तुम्हारी जात क्या है	तमिल सेल्वन	27
38.	दलित विवाद	तापोश चक्रवर्ती	22
39.	क्या आप साम्प्रदायिक हैं	स्वयं प्रकाश	35

दुनिया भर से

क्र. सं.	पुस्तक का नाम	लेखक का नाम	मूल्य
1.	रेड चीफ का अपहरण	ओ. हेनरी	18
2.	खासने वाला आदमी	श्रीमति मोल्सवर्थ	22
3.	चुराई गई चिट्ठी	एडगर ऐलन पो	22
4.	कियू की दास्तान	नगुयेन झू	33
5.	गृहस्वामिनी	वांग रून्चि	38
6.	फैक्ट्री कर्लक की डायरी	च्यांकचिलुंग	38
7.	शापित	एम्ब्रोज बायर्स	18
8.	कोहकाफ का बंदी	ले तोल्सतोय	27
9.	क्रिसमस ट्री और एक शादी	फ्योडोर दोस्तोयेव्स्की	17
10.	ओडीसियस जादूगरनी के देश में	ग्रीक पुराण	22
11.	देवलोक से आग की चोरी	ग्रीक पुराण	22
12.	लॉटरी	शली जैक्सन	18
13.	एक इंसान को कितनी जमीन चाहिए	लेव तोल्सतोय	21
14.	छोटा बादल	जेम्स जॉएस	20
15.	मोपासा की कुछ कहानियां	गोदम मोपासा	23
16.	मोपासा की कुछ और कहानियां	गोदम मोपासा	25
17.	टॉल्सटाय की कुछ कहानियां	लियोट ल्युटॉय	30
18.	टॉल्सटाय की कुछ और कहानियां	लियोट ल्युटॉय	30
19.	लू शुन की कुछ कहानियां	लू शुन	28
20.	लू शुन की कुछ और कहानियां	लू शुन	28
21.	इंडोनेशिया की लोक कथाएं	गीताब यास	34
22.	किपलिंग की कहानियां	रडयार्डि कपलिंग	31
23.	सिंकर	प्लूटार्क	27
24.	वह जो भटक गया	ईण् फ्र.बेन्सन	25
25.	प्रतिद्वंद्वी भूत	एलार्नन लेकवुड	22
26.	कोलंबस	ग्लैडीसड म्लाख	34
27.	दुनिया के सबसे खूबसूरत आदमी की मौत	ग्राब्रियलस गिरियाम कर्जेज	15